

# केन्द्रीय विद्यालय ढाना

## प्रतिवेदन

न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता (कटनी संकुल)

दिनांक २५.११.२०१६ दिन शुक्रवार

विद्यालय में नियत दिनांक को उक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर्व प्रथम देवी सरस्वती के पूजन के साथ गणमान्य निर्णायकों, डा. के. के. राय (व्याख्याता हा. से. स्कूल ढाना), श्रीमान अरुण कुमार जैन (हा. से. स्कूल ढाना), श्रीमान विष्णु प्रसाद चौरसिया (प्राध्यापक, शा. मि. स्कूल ढाना), आदरणीय प्राचार्य डा. मलय कुमार झा एवं प्रतिभागियों के साथ पधारे अनुरक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया तत्पश्चात श्री सुवान खान, प्रभारी मुख्य अध्यापक द्वारा निर्णायक मंडल का पुष्पगुच्छ सहित स्वागत अभिनंदन कर प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती नीतू शर्मा, प्राथमिक शिक्षिका ने किया। विद्यालय सहित इस प्रतियोगिता में कटनी संकुल के कुल चार विद्यालय सम्मिलित हुए जिनके कुल १० छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागी रहे।

प्रतिभागियों ने अपनी चुनी हुई कविताओं को भाव-भंगिमाओं सहित बहुत ही मोहक तरीके से प्रस्तुत किया एवं अपनी ओजपूर्ण एवं भावपूर्ण वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

प्रतियोगिता के अंत में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से क्रमशः संस्कृति खमपरिया (के वि ढाना) एवं रोहन शर्मा (के. वि. क्रं 1 सागर) को प्रथम स्थान, खुशी तिवारी (के. वि क्रं 3 सागर), शुभी पटेल (के. वि. ढाना), श्रेय गोस्वामी (के. वि क्रं २ सागर) को द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान हेतु रितु लोधी (के. वि. क्रं 1 सागर), सूर्याश चौबे (के. वि क्रं २ सागर), रितिका द्विवेदी (के. वि क्रं 3 सागर), शुभम गर्ग और देशांत कसोटिया (के. वि. दमोह) का चयन किया गया। तद् उपरांत आदरणीय प्राचार्य महोदय के करकमलों से सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये।

कार्यक्रम के पटाक्षेप पूर्व निर्णायक मंडल के सदस्यों, अनुरक्षकों एवं प्राचार्य महोदय द्वारा प्रतिभागियों के उत्साह वर्धन हेतु अपने विचार साझा किये गये साथ ही श्रीमती नीलम साहू प्राथमिक शिक्षिका के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात प्रतियोगिता की पूर्णाहुति हुई।

प्रभारी (न्यू. सा. का.)

प्रभारी मुख्य अध्यापक

प्राचार्य